



## प्रेस नोट थाना अमरोहा नगर

दिनांक 08.06.2021

### स्कूटी सवार महिला से झपट्टा मारकर चेन लूटने की घटना का सफल अनावरण कर शातिर लूटेरा मय अवैध शस्त्र व लूट में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.04.2021 को वादिनी श्रीमती रुबी चौधरी पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम कोठी खिदमतपुर थाना अमरोहा देहात द्वारा दी गई तहरीर "वादिनी की स्कूटी से घर आते समय पीछे से आये मोटर साइकिल सवार 02 अज्ञात लडकों द्वारा पवन किसान पेट्रोल पम्प के निकट झपट्टा मारकर गले की सोने की चेन लूट लेने के सम्बन्ध में" थाना अमरोहा देहात पर मु0अ0स0 117/2021 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उक्त लूट/झपट्टामारी की घटना को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती सुनीति द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना अमरोहा नगर को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा मुखिबर द्वारा दी गई सूचना पर कल दिनांक 07/08.06.2021 की रात्रि करीब 01.20 बजे उक्त लूट की घटना में संलिप्त अभियुक्त अरबाज उर्फ अक्षय पुत्र नसीम निवासी मौ0 मौहम्मदी सराय थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को कुन्दन कॉलेज के पीछे मौ0 तलवार शाह से गिरफ्तार किया गया जिसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, लूट की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व 3500/- रुपये नगद बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पर 226/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 बनाम अरबाज उर्फ अक्षय उपरोक्त पंजीकृत किया गया व बरामद स्पलेन्डर प्लस मोटर साइकिल रजि0न0 UP23AM 7815 के कागजात न दिखाने के कारण मौके पर धारा 207MVAAct के अन्तर्गत सीज किया गया। फरार अभियुक्त तस्लीम उर्फ मोनू की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।



पुछताछ विवरण:-

पुछताछ पर अभियुक्त अरबाज द्वारा दिनांक 28.04.2021 को अपने साथी तस्लीम उर्फ मोनू के साथ मिलकर करीब सवा महीने पहले पवन किसान पेट्रोल पम्प के पास एक स्कूटी से जा रही महिला का पीछा कर झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चेन लूटने की घटना का इकबाल किया व बरामद पैसे 3500/- रुपयों के बारे में उसी चेन को बेचकर प्राप्त होना व शेष पैसे खर्च होना बताया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अरबाज उर्फ अक्षय पुत्र नसीम निवासी मौ0 मौहम्मदी सराय थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

### फरार अभियुक्त:-

1. तस्लीम उर्फ मोनू पुत्र अजीज निवासी मौ0 कटरा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

### बरामदगी:-

1. 01 तमन्चा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर ।
2. लूट में प्रयुक्त स्पलेन्डर प्लस मोटर साइकिल रजि0न0 UP23 AM 7815 ।
3. 3500/- रुपये नगद ( लूटी हुई चेन को बेचकर )

### अपराधिक इतिहास अभियुक्त अरबाज उर्फ अक्षय:-

1. मु0अ0सं0 226/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 117/2021 धारा 392 भादवि थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

### पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह पुन्डीर थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
2. का0 343 संजय कुमार सैनी थाना अमरोहा नगर, अमरोहा ।
3. का0 1194 अजय कुमार थाना अमरोहा नगर, अमरोहा ।

